

# मत्स्यगांधा

2003



मात्स्यकी और जीविकोपार्जन

केंद्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान  
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)  
कोचीन - 682018



## भारत में ट्यूना मात्रिकी का विकास

एन.जी.के. पिल्लै और यू. गंगा

केंद्रीय समुद्री मात्रिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन, केरल

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य विपणन में सबसे बड़े उत्पादों में ट्यूना का द्वितीय स्थान है। वर्ष 1999 के आकलन के अनुसार विश्व में क्रमशः 5.5 बिलियन और 4.6 बिलियन अमरीकी डोलर का ट्यूना आयात और निर्यात हुआ था। वर्तमान में विश्व का वार्षिक ट्यूना संग्रहण लगभग 3.6 मिलियन मेट्रिक टन है जिन में 63% संग्रहण पसिफिक समुद्र से 21% हिंद महा सागर से और बाकी अटलान्टिक महा समुद्र से किया जाता है। प्रमुख ट्यूना मत्स्यन राष्ट्र हैं ताय्वान, जापान, इन्डोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चीन, स्पेन, यू.एस ए और फ्रान्स। भारत की अनन्य आर्थिक मेखला से पकड़ने योग्य ट्यूना की शक्य प्राप्ति लगभग 2.87 लाख टन होने पर भी वर्ष 1998-2002 के दौरान का ट्यूना उत्पादन केवल 67,000 टन था। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तविक शक्यता का तीन चौथायी भाग अविदोहित पड़ गया है। लेकिन हिंद महा सागर के मालद्वीप से 1990 के वर्षों के दौरान की वार्षिक ट्यूना पकड़ लगभग 90,000 टन थी। श्रीलंका में वार्षिक ट्यूना पकड़ 50,000 टन थी जिसका 70% से ज्यादा साषिमी ट्यूना के रूप में जापान को और बाकी यूरोप को भी निर्यात किया जाता है।

भारतीय समुद्र में पाए जाने वाली 9 जाति ट्यूनाओं में 6 वाणिज्यिक तौर पर प्रमुख हैं। इन में लिटिल टनी यूथिनस एफिनिस, फिगेट ट्यूना आॅक्सिस थासार्ड, बुल्लट ट्यूना आॅक्सिस रोचेयी, स्किप जैक कैटसुओनस पेलामिस, येलोफिन ट्यूना थन्स अल्बाकारस और लोंग टेइल ट्यूना थन्स टांगोल शामिल हैं। इनमें अंतिम तीन (येलोफिन, स्किपजैक और लोंग टेइल

पत्रव्यवहार : डॉ. एन.जी.के. पिल्लै, प्रधान वैज्ञानिक, सेन्ट्रल

मरैन फिशरीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पोस्ट बोक्स :

1603, कोचीन - 682018

ट्यूना) 'श्वेत मांस' (white meat) किस्म के हैं, जिनकी निर्यात बाजार में बड़ी मांग है। अन्य ट्यूनाएं 'लाल मांस' (red meat) के हैं और ये तटीय समुद्र में पाए जाते हैं।



येलोफिन ट्यूना - अवतरण केंद्र में

डिब्बा बंद ट्यूना प्रमुख ट्यूना उत्पाद है, जिसे मुख्यतः यू.एस.ए., यू.के., फ्रान्स, जर्मनी और कनडा देश निर्यात करते हैं। जापान में लोग ट्यूना को, विशेषतः साषिमी ग्रेड के ट्यूना को कच्चे रूप में खाना पसंद करते हैं। इस ग्रेड के ट्यूना को श्वेत मांस ट्यूना जाति, जैसे ब्लू फिन ट्यूना और बिंग आइ ट्यूना (ताजे रूप में -60°C में शीतीकृत और -55°C में रखा गया) से बनाया जाता है। उबालकर सूखन और धूमन किए गए स्किपजैक ट्यूना के बड़े टुकड़ों से काटमुओबुषी तैयार की जाती है। भारत के लक्षद्वीप समूह में स्किपजैक ट्यूना को परंपरागत रूप से उबालकर, धूमन और अच्छी तरह सूखन करके बनाए जाने वाला ट्यूना उत्पाद मासमीन का श्रीलंका, सिंगापोर और मलेशिया जैसे दक्षिण-पूर्व एशियन देशों में बड़ी मांग है। भारत की अनन्य आर्थिक मेखला से ट्यूना संग्रहण बढ़ाए जाने के लिए विपणन नीति तैयार करने का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणता वाले ट्यूना और ट्यूना उत्पादों का निर्यात बढ़ाना होना चाहिए।





येलोफिन ट्यूना का निकटतम दृश्य

भारत में ड्रिफ्ट गिल जाल और कांटा डोर लगाए गए मोटोरीकृत/छोटे यंत्रीकृत नाव सहित लघु पैमाने के मात्रियकी सेक्टर द्वारा मुख्यतः ट्यूना मत्स्यन किया जाता है। लक्षद्वीप के समुद्र से छोटे यंत्रीकृत पाब्लो नावों में लंबी डोर (जीवंत चारा उपयुक्त करके) और ट्राल उपयुक्त करके ट्यूना को पकड़ा जाता है। हाल ही में महाद्वीप से कुछ मोटोरीकृत/यंत्रीकृत नाव अपतट में बहुदिवसीय मत्स्यन करके स्किपजैक और येलोफिन जैसे उच्च मूल्य वाली अपतटीय ट्यूना जातियों को पकड़ते हैं। दक्षिण पूर्व तट पर 9-13 मी की समग्र लंबाई होने वाले चिंगट ट्रालरों को ड्रिफ्ट गिल जाल मत्स्यन के अनुकूल बनाकर ट्यूना

पकड़ बढ़ाई जाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। लक्षद्वीप समूह के ट्यूना लंबी डोर मत्स्यन में अब फाइबर विलेपित यानों जो ज्यादा टिकाऊ हैं, और मानवीय आस्फालन (splashing) के स्थान पर यंत्रीकृत आस्फालन का प्रयोग, कृत्रिम चारा का उपयोग, जी पी एस व्यवस्थाओं की स्थापना और मछुआरों के पूर्वानुमान की शक्य मत्स्यन मेखलाओं (PFZ) का उपयोग जैसे कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं। उत्तर पूर्व तट में चिंगट मत्स्यन के लिए उपयुक्त ट्रालरों को ट्यूना मोनोफिलमेन्ट लंबी डोर के रूप में परिवर्तित करने में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) द्वारा दी गई वित्तीय सहायता भारत की अनन्य आर्थिक मेखला में ट्यूना पकड़ बढ़ाए जाने के लिए हाल ही में किए गए कदमों में प्रमुख है। ट्यूना मात्रियकी के विकास के लिए अनुयोज्य आकार का ट्यूना मत्स्यन बेड़ों का विकास, अच्छी अवतरण सुविधाओं जैसे अवसंरचना, शीतीकृत संग्रहण स्थान, निर्यात आधारित संसाधन एकक (डिब्बाबंधन प्लान्ट, शीतीकृत ट्यूनाओं का शीतीकरण और पैकिंग), गुण वर्द्धित उत्पादों का विकास और भारत से संसाधित ट्यूना की गुणता निश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणता मान के अनुसार उत्कृष्ट गुणता नियंत्रण व्यवस्थाओं का सुनिश्चयन आवश्यक है।

### मुख्य शब्द - Keywords

ट्यूना - tuna (a high valued marine fin fish)

साषिमी ट्यूना - tuna meat used for raw consumption made from white meat tuna species freshly frozen at - 60°C and stored at - 55°C

शक्य मत्स्यन मेखला - PFZ (Potential Fishing zone)

श्वेत मांस - white meat - In tunas yellowfin, skipjack & long tail have white meat

लाल मांस - red meat - In tunas little tunny, frigate and bullet tuna have red meat

मासमीन - masmin - a traditional tuna product made from skipjack tuna by boiling, smoking & sundrying  
लंबी डोर - pole and line

जीवंत चारा - live bait

बहुदिवसीय मत्स्यन - multiday fishing

समग्र लंबाई - overall length (OAL)

कृत्रिम चारा - artificial bait

जी पी एस - GPS (Global Positioning system)

एम पी ई डी ए - (MPEDA) Marine Products Export Development Authority.

